



## **SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGAOUR (RAJ)**

### English version of Minutes of Meetings Proceeding of IQAC-

#### Minutes of Meeting Proceeding-

Today, on 13.07.2022, a meeting of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) was held in the Principal's office at 12:15 pm under the chairmanship of Principal, Dr Shankar Lal Jakhar.

The following members were present;

1. Principal, Dr.ShankarLalJakhar-Chairperson
2. Dr.H.R.Chharang-Coordinator
3. Dr Prakash Narayan-Member
4. Dr.H.RDhundhawal-Member
5. Shri Avinash Vyas –Member
6. Smt. Vinita Mirdha–Member
7. Shri Rajendra Prasad Guru-AAO-I
8. Shri JitendraPhulwaria –AAO

The matter of discussion in the meeting was as below-

1. The Principal said that IIQA has been approved, so a summary should be submitted soon to complete the inspection process by the NAAC team.
2. Construction work for basic sports facilities such as the track and pavilion is currently ongoing. Suggestions for improvement were invited.
4. The Principal Sir has decided to plantation and fencing around the playground
5. Feedback system from students is needed more attention for more effectiveness. Discussions were held on creating a more effective system for formulating suggestions.
6. Discussions were also held on purchasing new books for the library.
7. It was decided to clean the water tanks and water recharge system every month to ensure their proper functioning.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Principal.



## **SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGOUR (RAJ)**

### Minutes of Meeting Proceeding-

Today on 08-09-2022, a meeting of IQAC was organized in the Principal's chamber at 1:00 pm under the chairmanship of Principal, Dr. H. R. Chharang

The following members were present;

1. Principal -Dr.H.R.Chharang-Chairperson
2. Dr. Mahendra Singh Rathor-Coordinator
3. Dr Prakash Narayan-Member
4. Dr. H.R Dhundhawal-Member
5. Shri Avinash Vyas –Member
6. Smt. Vinita Mirdha–Member
7. Dr. Sunil Choudhary– Member
8. Shri Lakha Ram– Member
9. Shri Jitendra Phulwaria–AAO

The following points were discussed in this meeting-

1. The Principal Sir expressed his gratitude to everyone for submitting the DVV and gave instructions on how to prepare for it further.
2. The Principal Sir gave necessary instructions for repairing and improvement of the indoor stadium and emphasized that this work should be given priority and completed at the earliest.
3. Dr. Mahendra Singh Rathore, the IQAC coordinator, stated that the members of IQAC should submit the AQAR for session 2021-22 and urged them to complete all preparations.
4. Construction of a new room in the library has been started, and discussions were held regarding repairs and improvements.
5. A committee was constituted for the publication of the college magazine and prospectus.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Principal.



## **SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGAUR (RAJ)**

### Minutes of Meeting Proceeding

Today ,on 08-12-2022 a meeting of IQAC was organized in the Principal's chamber, at 1:00 pm under the chairmanship of Principal, Dr. H. R. Chharang

The following members were present;

1. Principal, -Dr.H.R.Chharang-Chairperson
2. Dr.Mahendra Singh Rathor-Coordinator
3. Dr Prakash Narayan-Member
4. Dr.H.R Dhundhawal-Member
5. Shri Avinash Vyas –Member
6. Smt. Vinita Mirdha–Member
7. Dr.Sunil Choudhary– Member
8. Shri Lakha Ram– Member
9. Shri Rakesh Gupta -Member

The following issues were discussed in the meeting-

1. The Principal gave instructions regarding the entire preparation in the college before the visit of the NAAC Peer team.
2. The implementation work plan was chalked out in meeting of the proposals of the Alumni Association held on 5 November 2022.
3. It was decided to renovate labs in the Department of Botany and Zoology.
4. College beautification work plan was discussed regarding NAAC Peer Team visit.
5. It was decided to start repairing and maintenance work of the college building.
6. Instructions were given to concerned faculty members to complete the AQAR of session 2021 -22 by 20th December 2022.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Principal.



## **SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGAOUR (RAJ)**

### Minutes of Meeting Proceeding-

Today on 28-04-2023 ,a meeting of IQAC was organized in the Principal's chamber, at 2:00 pm under the chairmanship of Principal, Dr.H.R.Chharang

The following members were present;

1. Principal, -Dr.H.R.Chharang-Chairperson
2. Dr.Mahendra Singh Rathor-Coordinator
3. Dr Prakash Narayan-Member
4. Dr .H. R Dhundhawal-Member
5. Shri Avinash Vyas –Member
6. Smt. Vinita Mirdha–Member
7. Dr.Sunil Choudhary– Member
8. Shri Lakha Ram– Member
9. Shri Rakesh Gupta –Adm. officer

The following points were discussed in the meeting-

1. The Principal Sir expressed gratitude for the cooperation of the college staff in the NAAC peer team inspection on dates 22-02-23 and 23-02-23. The peer team provided suggestions, which were discussed positively.
2. The time period for students to use the Indoor Stadium was fixed, and the maintenance of the stadium was discussed.
3. It was decided that the newly built Sulabh complex and canteens in the college will be accessible to students during examinations.
4. Discussion was held regarding the maintenance and caring of trees and plants in the playground during summer vacation.
5. It was decided that the Yoga and Beautification Courses will be organized since May 1 to 15 during the summer vacation under the joint aegis of Patanjali YogPeeth and Ambuja Foundation..



## SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGAOUR (RAJ)

6. The faculty members were appreciated for free coaching classes for students preparing for NET ,SET exams, and discussion was held to organizing such classes again in the new academic session.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Principal.



IQAC COORDINATOR

  
प्राचार्य  
श्रीवी०आर०एम०राज०महा०नागीर

## बैठक कार्यवाही विवरण

IOAC से एक बैठक आज दिनांक 13-3-2022 को अपराह्न 1 बजे प्राचार्य कक्षा में आयोजित हुई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

- (i) डॉ. एस. एन. जाखड़, प्रचार्य एवं संरक्षक
- (ii) डॉ. हरसुख धरंग, समन्वयक
- (iii) डॉ. प्रकाश नारायण, सदस्य
- (iv) डॉ. हेमराम धुंधवाल, "
- (v) अविनाश व्यास, "
- (vi) विनिला मिर्धा, "
- (vii) राजेंद्र प्रसाद उरुन AAO-1
- (viii) जितेंद्र फुलवारिया Adm. Adm. officer

इस बैठक में निम्न निर्णय लिए गये।

1. प्राचार्य जी ने बताया कि IOQA Approved हो चुके हैं इसलिए DDR को जल्दी ~~से~~ submit की जाए ताकि NAAC टीम द्वारा महाविद्यालय में निरीक्षण का कार्य सम्पन्न हो सके।
2. महाविद्यालय में आद्यारभूत खेलकूद सुविधाओं हेतु ट्रैक, पेवेलियन आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें सुधार हेतु सुझावों को आमंत्रित



किया।

3. प्राचार्यजी ने खेलकुद मैदान के चारों तरफ पौधारोपण करने एवं तारबंदी करने का निर्णय लिया।

4. विद्यार्थियों से छापर फीड बैंक तन्त्र को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया गया।

5. पुस्तकालय में नई पुस्तकों के क्रय करने पर विचार विमर्श किया गया।

6. पानी की टंकियों एवं R.O. सुशुद्ध की दर माह सफाई करने का निर्णय लिया गया।

प्राचार्यजी को धन्यवाद के साथ बैंक सम्पन्न हुई।

प्राचार्यजी

3/10/17

उद्योग

## बैठक कार्यवही विवरण

JDAC की एक बैठक आज दिनांक 09.12 को प्राचार्य कक्ष में अपराह्न 1 बजे आयोजित हुई। इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

- (i) डॉ. हरयुख धरण, प्राचार्य एवं संरक्षक
- (ii) डॉ. महेन्द्रसिंह राठौड़, समन्वयक प्रशासिक
- (iii) डॉ. प्रकाश नारायण, सदस्य प्रशासिक
- (iv) डॉ. हेमाराज दुधवाल, सदस्य
- (v) अविनाश व्यास, " प्रशासिक
- (vi) विमिता मिर्धा, " प्रशासिक
- (vii) लाखाराम, " प्रशासिक
- (viii) जितेन्द्र पुलवारिया Add. Adm. officer

इस बैठक में निम्न निर्णय लिए गये।

1. प्राचार्य महोदय ने DRR submit होने पर सभी को धन्यवाद दिया तथा आगे की तैयारी के बारे में निर्देश उदान किये।
2. Indone जेवरीफम में परम्मत एवं सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिये एवं बताया कि इस कार्य की वशीयता उदान पर अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए।




4. NAAC की visit से महाविद्यालय सौन्दर्यकरण पर नतीजे।


5. महाविद्यालय भवन में मरम्मत का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

6. सत्र 2021-22 की APMR को 20 दिम्बर तक सम्पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।


प्राचार्य जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



महेश्वर





  
Principal





## बैंक कार्यकारी विवरण

NAAC की एक बैठक आज दिनांक 8.12.22 को प्राचार्य कक्ष में अपराह्न 1 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

- (i) डॉ. हरसूख धरंग, प्राचार्य एवं ~~सदस्य~~ <sup>सदस्य</sup>
- (ii) डॉ. महेन्द्रसिंह रावेंड, समन्वयक ~~अध्यक्ष~~ <sup>अध्यक्ष</sup>
- (iii) डॉ. प्रकाश नारायण, सदस्य ~~अध्यक्ष~~ <sup>अध्यक्ष</sup>
- (iv) डॉ. हेमाराय धुंधार, " "
- (v) अविनाश व्यास, " 
- (vi) विजिता मिर्धा, " 
- (vii) डॉ. सुनील चौधरी, " 
- (viii) लाखाराम, " 
- (ix) राकेश कुमार गुप्ता, मंत्र. अधिकारी

इस बैठक में निम्न निर्णय लिए गये।

1. प्राचार्य महोदय ने NAAC team के visit से पहले महाविद्यालय में सम्पूर्ण लेवारी के सम्बंध में निर्देश दिये।
  2. दिनांक 5.11.22 को Alumni Association की बैठक में आये प्रस्तावों के लागू करने की चर्चा की गई।
- वनस्पति शास्त्र व प्राणी शास्त्र विभाग में नई Lab. बनाने का निर्णय लिखा गया।



3. IQAC समन्वयक डॉ. गीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि सब 2021-22 की AQR submit करनी है इसलिए IQAC के member इस कार्य की पूर्ण तैयारी कर लेंगे।

4. पुस्तकालय में नये कमरा का निर्माण कार्य प्रारंभ किया एवं मरम्मत एवं सुधार हेतु विचार विमर्श किया गया।

5. महाविद्यालय पत्रिका व विक्रयिका के प्रकाशन हेतु कमीटी का गठन किया गया।

6. प्राचार्य जी के धर्मवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

गणेश शर्मा

महोदय







शर्मा

प्रमुख

प्रमुख

## 'बैंक कार्याही निरवण'

ISAC कि एक बैठक आज दिनांक 28.04.2023 को ISAC कक्ष में अपराम 2 बजे आयोजित कि गयी। इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

- (1) डॉ. हरसुख राम धरण - प्राचार्य एवं अध्यक्ष
- (2) डॉ. महेंद्र सिंह राठौर - समन्वयक प्रिंसिपल
- (3) डॉ. प्रकाश नारायण - सदस्य
- (4) डॉ. हेमराम धुंधवाल - " 
- (5) श्री अविनाश व्यास - " 
- (6) श्रीमती विमला मिहर्ता - " 
- (7) डॉ. सुनील चौधरी - " 
- (8) श्री लक्ष्मणराम - " 
- (9) श्री राजेश कुमार गुला - " 

उपरोक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कि गयी -


- 1) दिनांक 22.02.2023 व 23.02.2023 को हुए NAAC निरीक्षण में महाविद्यालय स्टाफ के सहयोग के लिए प्राचार्य द्वारा धन्यवाद दिया गया एवं निरीक्षण फल प्रकाश दिये गये। सुझावों पर सत्रात्मक रूप से चर्चा कि गयी।
- 2) इन्टो स्ट्रेडियम के विद्यार्थियों के लिए खोलने हेतु समय अवधि तय कि गयी एवं स्ट्रेडियम के रखरखाव पर चर्चा कि गयी।
- 3) कॉलेज में नवनिर्मित सुलभ शौचालय एवं कैंटीन के परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए खोलने पर चर्चा कि गयी।
- 4) ग्रीष्मकालिन अनजारा के दौरान खेलकूद मैदान में लगे फेंड-पॉथे के रखरखाव के लिए चर्चा कि गयी।
- 5) ग्रीष्मकालीन अवकाश के प्रथम पखवाड़े में (1 से 15 मई) योगा एवं व्यूटीफिकेशन कोर्स पतंजलि योगपीठ एवं अंबुजा फाऊंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।




6) SET/NET एवं प्रतिभोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु विद्यार्थियों  
के लिए आयोजित निशुल्क कक्षाओं के लिए हेतु महाविद्यालय  
का कक्षाओं के आयोजन पर चर्चा की गयी।  
7) नए कक्षा से महाविद्यालय में एडमिशन ऑडिट (Academic  
Audit) समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

प्रचारार्थ जी के धन्यवाद के साथ बंधु सम्पन्न हुई।

प्रमुखि

प्रमुखि  
  
प्रमुखि

  
28/4/23





## **SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGOUR (RAJ)**

### **Action Taken Report of IQAC meetings (2022-23)**

#### **Important Agenda of IQAC meetings Session 2022-23**

##### **Date of meeting; 13.07.2022-**

- **Submission of SSR Summary prior to the NAAC Peer Team inspection.**
- **Suggestions for improvement regarding ongoing construction work for basic sports facilities such as the track and pavilion.**
- **Plantation and fencing around the playground**
- **On creating a more effective system for formulating suggestions of Feedback forms received from various stakeholders.**
- **To purchase new books for the library.**
- **To clean the water tanks and electricity system every month to ensure their proper functioning.**

##### **Date of meeting; 08-09-2022-**

- **Instructions for repairing and improvement of the indoor stadium and emphasized that the work should be given priority and completed at the earliest.**
- **To submit the AQAR for session 2021-22**
- **Discussions regarding on Construction of a new room in the library**
- **A committee was constituted for the publication of the college magazine and prospectus.**



## **SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGAOUR (RAJ)**

### **Date of meeting; 08-12-2022-**

- **Discussion regarding the entire preparation in the college before the visit of the NAACPeer Team.**
- **The implementation of the proposals of the Alumni Association program.**
- **To renovate labs in the Department of Botany and Zoology.**
- **College beautification work during NAAC visit.**
- **To start repair and maintenance work in the college building.**
- **To complete the AQR of session 2021 -22 by 20th December 2022.**

### **Date of meeting;28-04-2023-**

- **Maintenance of the outdoor stadium and track.**
- **Accessibility of newly built Sulabh complex and canteens in the college to students during examinations.**
- **The maintenance and caring of trees and plants in the playground during summer vacation.**
- **To organize the Yoga and Beautification Courses from May 1 to 15 during summer vacation under the joint aegis of PatanjaliYogPeeth and Ambuja Foundation.**



## SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGAUR (RAJ)

### Action Taken Report 2022-23

#### PLAN OF ACTION AND ACHIEVEMENT OUTCOMES

Plan of Action	Action taken /Achievements
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Submission of SSR Summary prior to the NAAC Pear team inspection</li> <li>• Suggestions for improvement regarding ongoing construction work for basic sports facilities such as the track and pavilion.</li> <li>• Plantation and fencing around the playground</li> <li>• On creating a more effective system for formulating suggestions by Feedback forms received from stakeholders .</li> <li>• To purchase new books for the library.</li> <li>• To clean the water tanks and water recharge system every month to ensure their proper functioning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SSR summary was submitted.</li> <li>• Suggestions were implemented</li> <li>• Plantation and fencing was done around playground.</li> <li>• In staff council meeting suggestions were considered and implantations strategy was decided.</li> <li>• Department wise lists of books were prepared and books were purchased.</li> <li>• Committee was constituted for maintenance for water tank and water recharge system.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenance of the outdoor stadium and track.</li> <li>• Accessibility of newly built Sulabh complex and canteen in the college to students during examinations.</li> <li>• The maintenance of trees and plants in the playground during summer vacation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For the Maintenance of the stadium sports committee was instructed to do needful.</li> <li>• Accessibility of newly built Sulabh complex and canteen in the college to students during examinations.</li> <li>• The caring of trees and plants in the playground during summer vacation was maintained by staff members and</li> </ul>



## SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGAUR (RAJ)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>To organize the Yoga and Beautification Courses since 1 to 15 May during the summer vacation under the joint aegis of PatanjaliYogpeeth and Ambuja Foundation..</b></li> </ul>	<p>peons.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>The Yoga and Beautification Courses from May 1 to 15 summer vacation under the joint aegis of PatanjaliYogpeeth and Ambuja Foundation were organized.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Instructions regarding the entire preparation in the college before the visit of the NAAC peer team.</b></li> <li>• <b>The implementation of the proposals of the Alumni Association program.</b></li> <li>• <b>To renovate labs in the Department of Botany and Zoology.</b></li> <li>• <b>College beautification work during NAAC visit.</b></li> <li>• <b>To start repair and maintenance</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Weekly meetings were held and committees were constituted for all preparatory work for NAAC peer team visit.</b></li> <li>• <b>The proposals of the Alumni Association program were considered and implemented.</b></li> <li>• <b>Renovation work was completed of labs in the Department of Botany and Zoology prior to NAAC peer team visit.</b></li> <li>• <b>With whole faculties and staff members were involve College beautification work was completed the task was monitored by different committees.</b></li> <li>• <b>Repair and maintenance work in the</b></li> </ul>



## SRI BALDEV RAM MIRDHA GOVT. COLLEGE NAGOUR (RAJ)

<p>work in the college building.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>To complete the AQAR of session 2021 -22 by 20th December 2022.</li></ul>	<p>college building was completed by repair and maintenance monitored by Shri Sukhrajpunar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>The AQAR of session 2021 -22 was submitted by 20th December 2022.</li></ul>
--	--

  
गजेंद्र सिंह

IQAC COORDINATOR

  
प्राचार्य  
श्रीबी०आर०एम०राज०महा०नागौर